

# I-244

## B.Sc. (Part-III) Examination, 2020

### ELECTRONICS

#### Paper - I

#### (Power Electronics, Microprocessor & IT Fundamental)

*Time Allowed : Three Hours*

*Maximum Marks : 50*

*Minimum Pass Marks : 17*

**Note :** Attempt all the five questions. One question from each unit is compulsory. All questions carry equal marks.

**नोट :** सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

#### Unit - I / इकाई - I

**Q. 1.** What is TRIAC ? How to TRIAC acts as a switch ?

Explain it. 10

TRIAC क्या है ? स्वीच के रूप में TRIAC कैसे कार्य करता है ? इसे समझाइये।

**(2)**

**Or / अथवा**

What is UJT ? Explain the use of a UJT as a relaxation oscillator in details. 10

UJT क्या है ? UJT का रिलेक्सेशन डॉलिट्र के रूप में उपयोग को समझाइये।

#### Unit - II / इकाई - II

**Q. 2.** Explain the following : 10

(a) ORA

(b) XRA

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

(a) ORA

(b) XRA

**Or / अथवा**

By using the instruction set of 8085 microprocessor, write down the program for “Arrange a series in Ascending and Descending Order”. 10

8085 माइक्रोप्रोसेसर के इन्स्ट्रuk्शन सेट का प्रयोग करते हुए “श्रेणी को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने” का प्रोग्राम लिखिए।

**(3)**

**Unit - III / इकाई - III**

- Q. 3.** Explain the internal architecture of 8755 processor in details. **10**

8755 प्रोसेसर के आन्तरिक संरचना को विस्तार में समझाइये।

**Or / अथवा**

- Explain the 8279 programmable keyboard / display interface in details. **10**

8279 प्रोग्रामेबल कीबोर्ड / डिसप्ले इन्टरफ़ेस को विस्तार में समझाइये।

**Unit - IV / इकाई - IV**

- Q. 4.** Write short notes on the following : **10**

(a) Internet explorer

(b) Netscape

निम्नलिखित की संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए :

(a) Internet explorer

(b) Netscape

**Or / अथवा**

- What is Modem ? Describe the different modes of modem operation in details. **10**

**(4)**

मॉडम क्या है ? मॉडम के विभिन्न मोड ऑपरेशन को विस्तार में समझाइये।

**Unit - V / इकाई - V**

- Q. 5.** Write short notes on any two of the following : **10**

(a) ISDN

(b) STP

(c) MAN

(d) LAN

(e) TCP

निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए :

(a) ISDN

(b) STP

(c) MAN

(d) LAN

(e) TCP